



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1931 (श०)
(सं० पटना 438) पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2009

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2009

सं० अ०सं०क०-०८-४९/२००४-५६०—हज समिति अधिनियम, २००२ (२००२ का ३५) की धारा-१८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हेतु अधिनियम की धारा-२१ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने दिनांक १३ अगस्त २००९ को समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की जिसमें सर्वसम्मति से सदस्य, श्री अनीसुर रहमान कासमी, नाजिम-ए-आला, इमारते शरीया, फुलवारीशरीफ को बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया।

२. हज समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का या उनके पदावधि, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

३. हज समिति अधिनियम, २००२ की धारा-२१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के आलोक में इसे बिहार गजट की असाधारण अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एम० ए० एजाजी,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) ४३८-५७१+५०-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>